

प्रेस नोट दिनांक-04.03.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आगामी चुवान के दृष्टिगत अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री अवधेश कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी के मार्गदर्शन में थाना पहाड़ी पुलिस ने 03 अभियुक्तों के कब्जे से 63 क्वार्टर देशी शराब बरामद की।

(क). उ0नि0 श्री शिवमणि मिश्रा तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त भुण्डाराम उर्फ राजेश कुमार पुत्र चुनकूराम निवासी बछरन थाना पहाड़ी चित्रकूट को 24 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(ख). उ0नि0 श्री राजेश कुमार तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त ललित कुमार पुत्र रुद्रप्रताप निवासी नांदी थाना पहाड़ी चित्रकूट को 19 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(ग). उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त अजय कुमार पुत्र रुद्रप्रताप निवासी नांदी थाना पहाड़ी चित्रकूट को 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 626/19 धारा 138 विद्युत अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त नत्थूलाल पुत्र बाबूलाल निवासी द्वारिकापुरी थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह थाना कोतवाली कर्वी
2. आरक्षी अजय तिवारी

(3). आज दिनांक-04.03.2021 को श्री दिनेश कुमार सिंह मण्डलायुक्त चित्रकूटधाम मण्डल एवं श्री के0 सत्यनारायणा पुलिस महानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा की अध्यक्षता में थाना भरतकूप अन्तर्गत रसिन ग्राम में जनचौपाल का आयोजन किया गया। महोदय द्वारा चौपाल में ग्रामीणों की समस्यायें सुनी गयीं एवं उनका त्वरित निस्तारण कराया गया। आगामी पंचायत चुनाव के सम्बन्ध में लोगों से चर्चा की गयी एवं किसी भी प्रकार के पुराने विवादों के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। महोदय द्वारा समस्त लाइसेंसी धारकों से अपने-अपने शस्त्र जमा कराने हेतु बताया गया एवं सभी से शांतिपूर्वक पंचायत चुनाव सम्पन्न कराने की अपील की। महोदय द्वारा ग्राम के बुजुर्ग व्यक्तियों का फूल-माला पहनाकर सम्मानित किया गया।

जनचौपाल में श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय क्षेत्राधिकारी नगर, श्री संजय कुमार उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक थाना भरतकूप, तहसीलदार कर्वी, उ0नि0 श्री गणेश कुमार गुप्ता एवं अन्य अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आगामी चुनाव के दृष्टिगत अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में श्री संजय कुमार उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक भरतकूप के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री धनन्जय राय तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त शंकर दयाल उर्फ बड़कू पुत्र संतोष त्रिपाठी निवासी रसिन थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को एक अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

01 अदद तमंचा व 02 अदद कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री धनंजय राय थाना भरतकूप
2. उ0नि0 श्री गणेश कुमार गुप्ता
3. मुख्य आरक्षी अब्दुल खलील
4. आरक्षी दीपक कुमार श्रीवास्तव

(5). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 04.03.2021 को एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा धीरेन्द्र इण्टर कॉलेज राजापुर में संगोष्ठी कर, एण्टी रोमियो टीम कोतवाली कर्वी द्वारा ग्राम डिलौरा में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा जे0एम0 बालिका इण्टर लेज कर्वी में संगोष्ठी कर, एण्टी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा राजकीय इण्टर कॉलेज बरगढ़ में संगोष्ठी कर, एण्टी रोमियो टीम थाना मारकुण्डी द्वारा ग्राम अमचुर नेरूआ में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना बहिलपुरवा द्वारा बजरंग इण्टर कॉलेज सपहा में बालिकाओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया। एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियो टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।